

# प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

## गैर ऋणी कृषकों हेतु बीमा प्रस्ताव पत्र

HDFC  
ERGO

मौसम खरीफ /बीमा साल \_\_\_\_\_

प्रस्ताव क्रमांक: \_\_\_\_\_

बैंक/सीएससी/एजेण्ट/बीमा मध्यस्थ \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

कोड: \_\_\_\_\_

मोबाइल नम्बर: \_\_\_\_\_

### कृषक का विवरण

नाम: श्री/ श्रीमती: _____	पता: _____
पिता/पति नाम: _____	पता: _____
मोबाइल नम्बर: _____	लिंग: <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> स्त्री <input type="checkbox"/> अन्य
आधार नम्बर: _____	पोस्ट ऑफिस नाम: _____
ई-मेल पता: _____	शहर/गांव नाम: _____
वर्ग: <input type="checkbox"/> अ.जा. <input type="checkbox"/> अ.ज.जा. <input type="checkbox"/> अन्य	जिला: _____ पिन कोड <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
कृषक वर्ग: <input type="checkbox"/> लघु <input type="checkbox"/> सामान्य <input type="checkbox"/> अन्य	राज्य: _____
कृषक समुदाय - स्वयं/ बटाईदार/साझेदार	

### बैंक विवरण

बैंक का नाम: _____	IFS/NEFT CODE: _____
खाता संख्या: _____	खाता प्रकार (बचत/चालू/अन्य): _____
बैंक शाखा: _____	फोन नम्बर: _____
नॉमिनी का नाम: _____	नॉमिनी का संबंध: _____

### अधिसूचित क्षेत्र का विवरण

राज्य	जिला	तहसील	गिरदावर वृत्त	पटवार वृत्त	ग्राम
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

### बीमा हेतु प्रस्तावित फसल एवं क्षेत्र का विवरण

कृषक वर्ग काश्तकार/बटाईदार पट्टदार	खसरा/ खतौनी नम्बर	फसल का नाम	बीमित क्षेत्र (हे.)	बीमित राशि प्रति हेक्टेयर	कुल बीमित राशि	प्रीमियम प्रति हेक्टेयर	कृषक प्रीमियम
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

### बीमित कृषक का घोषणापत्र

मैं/हम स्वीकार करता हूं/करते हैं कि प्रस्ताव फॉर्म/व्यक्तिगत कथन, घोषणापत्र और संबद्ध दस्तावेजों में किसी भी झूठे या गलत या त्रुटिपूर्ण बयान, भ्रामक जानकारी या गलतबयानी की स्थिति में, या फिर पॉलिसी से कोई लाभ पाने के उद्देश्य से मेरी/हमारी या हमारी और से प्रतिनिधित्व कर रहे किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रस्तावित जोखिम की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले किसी तथ्य को छुपाये जाने की स्थिति में बीमा कंपनी पॉलिसी को रद्द कर सकती है।

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मेरे/हमारे पास इस संपत्ति और/या इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमित की जाने वाली फसल के कानूनी स्वत्वाधिकार हैं। मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, इस बात की घोषणा करते हैं और आश्वासन देते हैं कि ऊपर दिये गये कथन मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास में सच्चे, सटीक और संपूर्ण हैं। मैं/हम बीमा को भविष्य के दावों के लिये प्रभावी बनाना चाहते हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि प्रस्ताव और घोषणापत्र मेरे और \_\_\_\_\_ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच किये जाने वाले अनुबंध का आधार होंगे और मैं/हम कंपनी द्वारा लागू की गयी शर्तों के अधीन पॉलिसी को स्वीकार करने की सहमति देता हूं/देते हैं।

मैं/हम स्वीकार करता हूं/करते हैं कि पॉलिसी को प्रीमियम की राशि वास्तविक रूप में प्राप्त होने पर जारी किया जायेगा और जोखिम बीमा कंपनी को पूरा प्रीमियम प्राप्त होने के बाद ही शुरू होगा।

दिनांक: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

बीमित कृषक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

\*इस आवेदन के साथ आधारकार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें बैंक का नाम, आवेदक का नाम, आईएफएस कोड, खाता संख्या का उल्लेख हों, बुवाई प्रमाणपत्र/नवीनतम खसरा खतौनी की प्रति संलग्न करें।

### फसल बुवाई प्रमाण-पत्र

मौसम: \_\_\_\_\_

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती: \_\_\_\_\_

पिता/पति श्री: \_\_\_\_\_ इनके द्वारा ग्राम: \_\_\_\_\_

पटवार वृत्त: \_\_\_\_\_ गिरदावर वृत्त: \_\_\_\_\_ तहसील: \_\_\_\_\_

जिला: \_\_\_\_\_ राज्य मध्यप्रदेश में खसरा/खतौनी संख्या: \_\_\_\_\_ में फसल: \_\_\_\_\_

दिनांक (बुवाई की दिनांक) \_\_\_\_\_ को रक्का \_\_\_\_\_ हेक्टेयर में बोई गई है।

श्री/सुश्री/ श्रीमती: \_\_\_\_\_ इस फसल मौसम के लिए स्वयं काश्तकार/बटाईदार साझेदार है।

कृषक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

पटवारी/गिरदावर

कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी

स्थान: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

मोबाइल नम्बर: \_\_\_\_\_